



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-30102023-249777  
CG-DL-W-30102023-249777

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 40] नई दिल्ली, अक्टूबर 15—अक्टूबर 21, 2023, शनिवार/आश्विन 23—आश्विन 29, 1945  
No. 40] NEW DELHI, OCTOBER 15—OCTOBER 21, 2023, SATURDAY/ASVINA 23—ASVINA 29, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय  
(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 148.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (फोटोग्राफर और सहायक फोटोग्राफर) भर्ती नियम 1979 को, जहाँ तक उनका संबंध सहायक फोटोग्राफर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय में सहायक फोटोग्राफर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय सहायक फोटोग्राफर (समूह – ग पद) भर्ती नियम, 2023 है।  
(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .-** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या,  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।  
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :  
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति .-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति .-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक फोटोग्राफर	3 (2023)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर 2 (19900-63200/- रु)	अचयन पद।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(6)	(7)	(8)
18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थी के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा को अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	<b>आवश्यक:</b> (क) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ख) किसी मान्यता प्राप्त निकाय, संस्थान या विश्वविद्यालय से एक वर्ष की अवधि का फोटोग्राफी या डिजिटल फोटोग्राफी में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स;	लागू नहीं होता।

	(ग) डॉक्यूमेंट फोटोग्राफी और डार्क रूम वर्क या डिजिटल फोटोग्राफी सहित फोटोग्राफी में कम से कम एक वर्ष का अनुभव।	
--	---	--

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेदन किया जाएगा ।
(9)	(10)	(11)
<p>दो वर्ष सीधी भर्ती द्वारा ।</p> <p><b>नोट:</b> परिवीक्षा पद पर नियुक्त सीधी भर्ती को केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की अवधि के अनिवार्य प्रशिक्षण से गुजरना होगा ।</p>	<p>(i) 33-1/3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों में असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा; और</p> <p>(ii) 66-2/3 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p><b>पदोन्नति :</b></p> <p>केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय के अधीन फोटोग्राफिक प्रयोगशाला में तीन साल की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स-1(18000-56900/- रु) के स्तर में प्रयोगशाला परिचर और केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में सुसंगत क्षेत्र में दो -चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है ।</p> <p><b>टिप्पण :</b> जहां कनिष्ठों ने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, परन्तु उनके पास अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी हो कम है और उन्होंने अपने उन कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के पदधारी,-</p> <p>(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या</p> <p>(ii.) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900/- रु) में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात प्रदान की गई ग्रेड में नियमित सेवा के साथ फोटोग्राफिक प्रयोगशाला में तीन वर्ष का कार्य अनुभव; और</p> <p>(ख) स्तंभ 7 में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता रखने वाले।</p>

		<p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।</p>
--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1.) कार्यालय प्रमुख, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय -अध्यक्ष ;</p> <p>(2.) प्रशासनिक अधिकारी, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य ;</p> <p>(3.) न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय के कैडर में कोई भी समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी - सदस्य।</p> <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1.) कार्यालय प्रमुख, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय -अध्यक्ष ;</p> <p>(2.) प्रशासनिक अधिकारी, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य ;</p> <p>(3.) न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय के कैडर में कोई भी समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी - सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

[फा. सं. डीएफएसएस/38(8)2014]

श्याम सुंदर लाल, अवर सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**  
(Directorate of Forensic Science Services)

New Delhi, the 13th September, 2023

**G.S.R.148.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Bureau of Police Research and Development (Photographer and Assistant Photographer) Recruitment Rules, 1979, in so far as they relate to the post of Assistant Photographer except as respects things

done or omitted to have been done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Photographer in the Directorate of Forensic Science Services, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Directorate of Forensic Science Services, Assistant Photographer (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2023.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix .-** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc. .-** The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification .-** No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,  
shall be eligible for appointment to the said post:  
  
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of opinion that it is necessary to expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.
6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Photographer.	03* (2023) *(subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non - Ministerial.	Level 2 (Rs. 19900-63200/-).	Non -selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 -27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the central Government.)	<b>Essential:</b> (a) 12 <sup>th</sup> class pass; (b) one years Certificate or Diploma course from any recognised body or Institute or University in Photography or Digital	Not applicable.	Two years for direct recruits.  <b>Note:</b> The direct recruits appointed to the post on probation shall undergo mandatory training of at least two

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.	Photography; (c) at least one year experience in Photography including document photography and dark room work or digital photography.		weeks' duration in the relevant area in Central Forensic Science Laboratory.
--	---	--	--

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
<p>(i) 33-1/3 per cent by promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment;</p> <p>(ii) 66-2/3 per cent by direct recruitment.</p>	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Laboratory Attendant in level 1 (Rs. 18000-56900/-) in the pay matrix working under Directorate of Forensic Science Services Cadre with three years of regular service in the grade in a photographic laboratory and having successfully completed two -four weeks training in the relevant area in a central forensic science laboratory.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Officials of the Central Government, State Government or Union territories,-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with three years' work experience in Photographic Laboratory with regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis on post in level 1 (Rs. 18000 -56900/-) in the pay matrix; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications specified in column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>1. Head of Office, Directorate of Forensic Science Services – Chairman;</p> <p>2. Administrative Officer, Directorate of Forensic Science Services – Member;</p> <p>3. Any Group 'B' Gazetted Officer in Directorate of Forensic Science Services Cadre – Member.</p> <p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>1. Head of Office, Directorate of Forensic Science Services – Chairman;</p> <p>2. Administrative Officer, Directorate of Forensic Science Services – Member;</p> <p>3. Any Group 'B' Gazetted Officer in Directorate of Forensic Science Services Cadre – Member.</p>	Not applicable.

[F. No. DFSS/38(8)/2014]

SHYAM SUNDER LAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2023

**सा.का.नि. 149.**—केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उप-धारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राइफल्स (समूह 'ग' के योद्धक पद) भर्ती नियम, 2000 को जहां तक उनका संबंध नायब सूबेदार (बीज लेख) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार, गृह मंत्रालय के असम राइफल्स में नायब सूबेदार (बीजलेख) पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स, नायब सूबेदार (बीजलेख) समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक) पद भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर.—**पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उसके वेतन मैट्रिक्स का स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.—**वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता.**—चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता, केन्द्रीय सशस्त्र बलों और असम राइफल्स में भर्ती के लिए चिकित्सा जांच हेतु भर्ती के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी पुनरीक्षित एक समान दिशा निर्देशों और उसके भावी संशोधनों के अनुसार होगी।

**6. अधिवर्षिता.**—इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक ऐसे व्यक्ति उस माह के अंतिम तारीख को जिसमें वह साठ वर्ष के अपराहन या केंद्रीय सरकार द्वारा जारी समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरा कर लेता है सेवा निवृत्त होगा।

परन्तु एक व्यक्ति जिसकी जन्म की तिथि महीने की एक तारीख को है, वह उसी महीने के पहले महीने के अंतिम दिन को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर दोपहर बाद को सेवानिवृत्त होगा।

परन्तु यह और कि किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त की निर्धारित आयु से अधिक सेवा में बने रहने की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

**7. निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उसे केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जो उसका विनिश्चय करेगी।

**8. विथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा विथिल कर सकेगी।

**9. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नायब सूबेदार (बीजलेख)	79'(2023) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6, (रु0 35400-112400 /-)	चयन

सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की प्रणाली—सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिषतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा



प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की गई भर्ती की दशा में, जिस ग्रेड से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है।

(11)

असम राइफल्स के ऐसे सदस्यों में से प्रोन्नति द्वारा, जो वारंट ऑफिसर (बीजलेख) का पद वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रू0 29,200-92,300/-) में सेवारत हो इस श्रेणी में निरंतर छह वर्षों की सेवा की हो। चिकित्सा श्रेणी शेष-1 हो, बल द्वारा पदोन्नति हेतु निर्धारित किया हो और पदोन्नति पूर्व आवश्यक प्रशिक्षण न्यूनतम मंदो से चार सप्ताह का सफलतापूर्वक पास हो।

**टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले कही पूरी करली है अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति बैठती है, तो उसकी संरचना क्या है?

किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(12)

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति पर विचार करने के लिए—

1. ब्रिगेडियर (कार्मिक), असम राइफल्स —अध्यक्ष
2. कर्नल (रिकार्ड), असम राइफल्स —सदस्य
3. लेफ्टिनेंट कर्नल, स्टाफ ऑफिसर-1 (प्रशासन), असम राइफल्स —सदस्य
4. लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर का एक तकनीकी अर्हता प्राप्त अधिकारी —सदस्य
5. असम राइफल्स के दो अधिकारी जिनका पद सूबेदार (वेतन मैट्रिक्स लेवल-7) से कम न हो, जिनमें एक अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो। —सदस्य

समूह 'ख' विभागीय पृष्टीकरण समिति, प्रोन्नति पर विचार करने के लिए—

1. ब्रिगेडियर (कार्मिक), असम राइफल्स —अध्यक्ष
2. कर्नल (रिकार्ड), असम राइफल्स —सदस्य
3. लेफ्टिनेंट कर्नल, स्टाफ ऑफिसर-1 (प्रशासन), असम राइफल्स —सदस्य
4. लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर का एक तकनीकी अर्हता प्राप्त अधिकारी —सदस्य
5. असम राइफल्स के दो अधिकारी जिनका पद सूबेदार (वेतन मैट्रिक्स लेवल-7) से कम न हो, जिनमें एक अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो। —सदस्य

लागू नहीं

फा. सं. ए/पर्स/आर आर/समूह ख/नायब सूबेदार(बीजलेख)/2019,

आर जोसेस वषुम, अवरसचिव, (कार्मिक-II)

New Delhi, the 11th October, 2023

**G.S.R. 149.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 165 of the Assam Rifles Act 2006 (47 of 2006) and in supersession of the Assam Rifles (Group 'C' combatised posts) Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the post of Naib Subedar (Cipher), except as respects to things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Naib Subedar (Cipher), in the Assam Rifles under the Ministry of Home Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**— 1. These rules may be called the Assam Rifles Naib Subedar (Cipher), Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised) post, Recruitment Rules, 2023.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**— The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Medical fitness.** — Medical fitness shall be as per revised uniform guidelines for recruitment medical examination for recruitment in the Central Armed Police Forces & Assam Rifles issued by Ministry of Home Affairs and future amendments thereof.

6. **Superannuation.**—Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central government from time to time:

Provided that a person whose date of birth is on the first day of the month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years:

Provided further that no person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

7. **Interpretation.**—If any question relating to the interpretation of these rules arises it shall be referred to the Central Government who shall decide the same.

8. **Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. **Saving.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non selection post.	Ag-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Naib Subedar (Cipher).	79*(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level-6 (Rs. 35400 to 112400/-).	Selection Post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
By promotion from amongst members of Assam Rifles holding the rank of Warrant Officer (Cipher) in level 5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix with six years regular service in the grade having medical category SHAPE-1 and who have successfully qualified mandatory pre-promotional training of minimum two to four weeks or as prescribed by the Force, in the Cipher trade and other Force specific requirements as prescribed from time to time.
<b>Note:</b> Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:-</b> 1. Brigadier Personnel Assam Rifles – Chairman; 2. Colonel (Records), Assam Rifles – Member; 3. Staff Officer-1 (Administrative)} of the rank of Lieutenant Colonel, Assam Rifles –Member; 4. One Technically qualified officer from Signals of the rank of Lieutenant Colonel – Member; 5. Two officers of Assam Rifles not below the rank of Subedar (level 7 in the pay matrix), one belonging to minority community and other belonging to Scheduled Caste or the Scheduled Tribe – Member.	Not applicable
<b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:-</b> 1. Brigadier Personnel Assam Rifles – Chairman; 2. Colonel (Records), Assam Rifles – Member; 3. Staff Officer-1 (Administrative)} of the rank of Lieutenant Colonel, Assam Rifles – Member; 4. One Technically qualified officer from Signals of the rank of Lieutenant Colonel – Member; 5. Two officers of Assam Rifles not below the rank of Subedar (level 7 in the pay matrix), one belonging to minority community and other belonging to	

Scheduled Caste or the Scheduled Tribe

— Member.

[F. No. A/Pers/RRs/Gp B/Nb Sub (Cipher)/2019]

R JOSES VASHUM, Under Secy. (Pers-II)

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2023

**सा.का.नि. 150.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, हैदराबाद में वरिष्ठ प्रयोगशाला परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, हैदराबाद, वरिष्ठ प्रयोगशाला परिचर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में यथा विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता**: वह व्यक्ति-  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति**: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ	02* (2023)	साधारण	वेतन मैट्रिक्स में	लागू	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच।

प्रयोगशाला परिचर	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-2 (19900-63200 रुपये)	नहीं होता।	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) <b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।
------------------	--	--	----------------------------	------------	---

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<b>अनिवार्य:</b> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायनशास्त्र या फार्मसी या जैव रसायन या फार्मस्यूटिकल रसायन या फार्मकॉलजी या माइक्रोबायोलॉजी में स्नातक या समकक्ष या भारत में रसायनज्ञ संस्थानों से एसोसिएट-शिप डिप्लोमा। <b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं, शिथिल की जा सकती हैं। <b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हताएँ, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष।  <b>टिप्पण:</b> परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. निदेशक, क्षेत्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, हैदराबाद -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली -सदस्य; 3. क्षेत्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, हैदराबाद से कोई भी समूह 'क' अधिकारी -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.12018/2/2018-डीआर]

बिकाश आर महतो, अवर सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

New Delhi, the 13th October, 2023

**G.S.R. 150.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating for the method of recruitment for the post of Senior Lab Attendant in the Central Drugs Testing Laboratory, Hyderabad under Central Drugs Standard Control Organisation, Ministry of Health and Family Welfare, namely:—

**1. Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Drugs Standard Control Organisation, Central Drugs Testing Laboratory, Hyderabad, Senior Lab Attendant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in pay matrix.** — The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age- limit, qualification, etc.**— The method of recruitment age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.** — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Senior Laboratory Attendant.	02* (2023) *subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix Rs.19900-63200.

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(5)	(6)
Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (The upper age-limit is relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. <b>Note :</b> The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(7)	(8)
<b>Essential:</b> Bachelor in Chemistry or Pharmacy or Biochemistry or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Microbiology from a recognised University or equivalent. OR Associate-ship Diploma of Institutions of Chemist in India. <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. <b>Note 2:</b> Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruitment. <b>Note:</b> There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -</p> <p>1. Director, Regional Drugs Testing Laboratory, Hyderabad -Chairman;</p> <p>2. Deputy Director (Administration) Central Drug Standard Control Organisation (Head Quarter), New Delhi - Member;</p> <p>3. Any group 'A' Officer, Regional Drugs Testing Laboratory, Hyderabad -Member.</p>	Not applicable.

[F. No. A.12018/2/2018-DR]

BIKASH R MAHATO, Under Secy.